

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2022-2023 (कर निर्धारण वर्ष 2023-2024) New Scheme

1 नाम कर्मचारी :	कर्मचारी सं.
पद	जन्म तिथि :
पैन न. (यदि प्रथम बार JDA में दिया जा रहा है तो प्रति भी दे) :	मोबाइल न.

2 आय: वर्ष-2020-2021 में प्राप्त कुल वेतन रु.

3 अन्य आय रु.

4 सकल आय रु.

5 घटाइये कटौतियाँ :-पेंशन योजना में अंशदान (धारा 80CCD2) GCPF (Not Exceeding 10% of Salary of Previous Year) रु.

6 कुल कटौती 6 का योग रु.

7 कर योग्य आय (4-6) रु.

8 आयकर की गणना

एक व्यक्ति करदाता	
2,50,000 रु. तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%
5,00,001 से 7,50,000 तक	10%
7,50,001 से 10,00,000 तक	15%
10,00,001 से 12,50,000 तक	20%
12,50,001 से 15,00,000 तक	25%
15,00,001 एवं अधिक	30%

(i) कुल आयकर

(ii) घटाये : कर योग्य आय (7) 5 लाख तक होने पर कर छुट 12500/-तक धारा 87A

(iii) कुल आयकर(i-ii)

(iv) उपकर 4% (आयकर पर)

(v) कुल आयकर (उपकर सहित) (iii+iv)

10 स्रोत पर आयकर कटौती का विवरण

(प्रतिनियुक्त (JDA कर्मचारी हेतु)

कर्मचारी हेतु)

नवम्बर 2022 में

दिसम्बर, 2022 में

जनवरी 2023 में

फरवरी 2023 में

मार्च 2023 में

टी.डी. एस.

योग

(कुल)2022-23

रु.

रु.

रु.

रु.

रु.

रु.

रु.

हस्ताक्षर

आयकर देय/वापसी योग्य शेष- /रु.